

# bajaj CONSUMER CARE

November 11, 2022

DCS-CRD BSE Limited First Floor, New Trade Wing Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai 400 023 <b>Stock Code: 533229</b>	Listing Compliance National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, 'G' Block Bandra- Kurla Complex Bandra East, Mumbai 400 051 <b>Stock Code: BAJAJCON</b>
--	--

Dear Sir/Madam,


**Sub: News Paper Publication of Extracts of Consolidated Unaudited Financial Results for the second quarter/half year ended September 30, 2022**

Pursuant to the Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copies each of Economic Times (English Daily) and Jai Rajasthan (Hindi Daily) both dated November 11, 2022, for publication of extracts of Consolidated Unaudited Audited Financial Results for the second quarter/half year ended September 30, 2022.

The same may please be taken on record and suitably disseminated to all concerned.

Thanking you,

Yours Sincerely,  
**For Bajaj Consumer Care Limited**



**Vivek Mishra**  
**Head-Legal & Company Secretary**  
Membership No.: A21901



Encl: as above

# Final Bidders' List on Nov 20

**From Page 1**  
The resolution professional for Future Retail has said the final list of prospective bidders that have submitted EoIs will be announced on November 20. They'll have to submit resolution plans by December 15. As of September 27, the resolution professional had got claims of over Rs 21,450 crore from financial creditors, which mainly include banks and financial institutions, Rs 3,064 crore from operational creditors such as supplier brands, and over Rs 272 crore from statutory creditors, employees and other creditors, according to the latest docu-

ments uploaded on the Future Retail website.  
The second executive said Reliance will examine the financial paperwork after its EoI is accepted and then decide whether to make a final bid for Future Retail, considering not much is left by way of assets except the store brand names, around 302 stores and warehousing space. Thirty of the stores are large format and 272 small-format. Future still operates them, although footfall has dropped drastically due to poor inventory.  
**LEGAL WRANGLE**  
Reliance Retail Ventures, a subsidiary of Reliance Industries,

in August 2020 announced its plan to acquire the retail, wholesale, logistics and warehousing business of Future Group for Rs 24,713 crore.  
However, US e-commerce giant Amazon, an investor in one of the Future holding companies, opposed the deal in court over alleged breach of shareholder contract. In April, the secured creditors (banks and financial institutions) of Future Group opposed the deal, following which Reliance called it off after extending the deadline thrice.  
After the deal was announced, Reliance had provided financial help to Future Group to run the business.

However, in February, Reliance shuttered over 950 Future Retail stores after the latter defaulted on rent payments. Reliance then started its own stores under new brands at the same locations. Future's hypermarket Big Bazaar was rebranded Smart Bazaar, Central mall became Centro and Brand Factory became Fashion Factory.  
Reliance became the tenant of these locations in early 2021, when the Future Group had defaulted on rent payments to landlords. Subsequently, Reliance sub-let these locations to Future Group. Reliance also helped Future Group with money to buy stock for its stores and working capital.

# Tea Board Seeks ₹1,000 Cr Support Over 5 Years

**Kolkata:** The Tea Board has sought an assistance of ₹1,000 crore for the industry in the next five years starting 2022-23. Chairman of Tea Board Saurav Pahari said that in the budget submitted to the commerce ministry, the focus has been on handholding the small tea growers (STGs) which contribute to 52 per cent of the total production in the country.  
"We have sought an assistance of Rs 1000 crore in the budget submitted to the ministry for a period of five years starting 2022-23," Pahari said after the AGM of the Indian Tea Association on Thursday.  
He said that the budget is primarily intended to handhold the STGs which contribute to 52 per cent of the country's production volumes.  
Pahari said that the Board had also sought subsidy for orthodox tea production which has a good export market. "It is good to note that the tea industry on the whole now acknowledges the contribution of the STGs. It should be a

collaborative effort between the big tea planters and the STGs for the development of the industry," Pahari said. He said tea exports had plummeted but now are picking up.  
"However, domestic production has not picked up as expected. India needs to build the brand image of tea," he added.  
He also said that technology has to be adopted to optimise the use of labour in the industry, while production costs have to be kept within control to ensure profitability. Chief Economic Adviser (CEA) to the government V Anantha Nageswaran said through a video clip that the share of India in global GDP has increased from 2.6 per cent to 3.4 per cent. The world is passing through multiple crises like high inflation, high interest rates and an increase in commodity prices, he said. Nageswaran said that India had responded to the crises by targeted fiscal and monetary policies and gave a lot of stimulus in the last

three years. The MSME sector had been supported through the credit guarantee scheme, the CEA said. Nageswaran said

the government had recapitalised the public sector banks which had seen a decline in the NPAs. —PTI

# List of Winners

**From Page 1**  
India — the third-largest startup ecosystem — behind the US and China, has over 80,000 registered startups, of which more than 100 are unicorns, or companies valued at \$1 billion or more.  
The winners of these elite awards for startup excellence were chosen at a virtual meeting that lasted for more than two hours on October 28. A stellar jury led by Infosys CEO and MD Salil Parekh picked the winners in nine categories from a shortlist of 45 contenders.  
Razorpay, the Bengaluru-based online payments solutions company, won top honours as the Startup of the Year, while Falguni Nayyar, founder and CEO of Nykaa, bagged the award in the newly launched CEO of the Year category. Shekhar Kirani, partner, Accel, won the Midas Touch Award for Best Investor.  
Other top industry leaders who participated in the jury deliberations included Shalendra Singh, MD, Sequoia India and Southeast Asia; Hemant Taneja, MD, General Catalyst; Girish Mathrubootham, founder & CEO, Freshworks Inc; Arundhati Bhatnagar, CEO, Salesforce India; Sriharsha Majety, cofounder and CEO, Swiggy; Sahil Barua, cofounder and CEO, Delhivery; Satyan Gaj-

wani, vice chairman, Times Internet Ltd; Lizzie Chapman, cofounder and CEO, ZestMoney; and Sanjeev Bikhchandani, cofounder, InfoEdge.  
The jury awarded the prize for Bootstrapped Champ to Noise, a smart wearables brand with sizable revenue and profits, while the prize for Top Innovator went to Eystem, a Bengaluru-based cell therapy company.  
Cloud telephony platform Exotel was chosen as the winner in the Comeback Kid category while Solinas Integrity, a deep-tech firm founded at IIT Madras that develops robotic solutions for the pipeline and sanitation industry, was adjudged as the Best-on-Campus. Smita Deorah, co-CEO, Lead, an edtech company, was the winner in the Woman Ahead category and plastic recycling startup Banyan Nation bagged the prize for Social Enterprise.

**Union Bank of India**  
PLOT NO 337 & 340, Pillar No. 94, New Sanganer Road, Shyam Nagar, Jaipur  
**Shifting of Shyam Nagar Branch (erstwhile Corporation Bank) to New Premises**  
Union Bank of India informs that as per Govt. Notification issued by Govt. of India, Andhra Bank & Corporation Bank have been merged with Union Bank of India w.e.f. 01.04.2020. As per merger/amalgamation, erstwhile Corporation Bank, Shyam Nagar Branch will be shifted to Union Bank of India, New Sanganer Road Branch's premises which will be effective from 12.12.2022.  
Address of New Premises:-  
Union Bank of India, Plot No. 8, Vivek Vihar, New Sanganer Road, P.O. Shyam Nagar, Jaipur  
Regional Head

**Sale of Assets**  
**Shirt Company (India) Pvt. Ltd. (In Liquidation)**  
E-Auction under the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016  
The following Assets and Properties owned by Shirt Company (India) Pvt. Ltd. (in Liquidation) forming part of the Liquidation Estate formed by the liquidator, appointed by the Hon'ble NCLT, Mumbai Bench vide order dated 22nd Dec. 2021. The sale is on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS" and "NO INTEGRATED BASIS". The Auction sale will be done through the E-Auction platform (with unlimited extension of 5 mins): <https://ncltauction.auctioniq.net>  
E-Auction date: 15th December 2022 (2:00 PM to 3:00 PM)

Lot No.	Description of Asset	Location	Reserve Price (Rs.)	EMD (Rs.)	Incremental Bid (Rs.)
1	Independent office building (basement + Ground + 3 Upper Floors) admeasuring about 23373 sq. feet. (carpet) with attached gardens in Lower Parel, Mumbai - 400013	Unit No. 2, Brady Gladys's Plaza, 1/447, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013	Rs. 66.24 Crores	Rs. 6.62 Crores	Rs. 1 Crore
2	Land admeasuring about 39740.17 Sq. Meters with Factory Buildings and appropriate facilities along with Plant and Machinery for vertically integrated operations right from yarn dyeing and fabric weaving to fabric finishing, Ladies and Mens' shirts	S F Nos. 460/1, 461/1, 459/2B, 459/1A, 459/14B, 460/3A, 459/2, 459/3, 459/1, 4 5 9 / 2 C Somayampalayam Village, Post - Kanuvai - Coimbatore - 641108, Tamil Nadu	Rs. 29.97 Crores	Rs. 2.99 Crores	Rs. 0.50 Crores

**Important timelines for this process is as under:**

Sr. No.	Particulars	Last Date
1	Submission of Eligibility Documents by prospective bidders*	2nd December 2022
2	Declaration of Qualified Bidder	3rd December 2022
3	Inspection or Due Diligence to Qualified Bidder	10th December 2022
4	Submission of EMD	12th December 2022
5	Auction Date	15th December 2022
6	Last date for making the entire payment by successful bidder (net of EMD)	14th January 2023

\* refer Annexure I of E-Auction Process Document  
Interested applicants may refer to the detailed E-Auction process document uploaded on the website of the liquidator <http://headwayip.com> and also on the E-Auction website <https://ncltauction.auctioniq.net>. Email: [cs@shirtindia.com](mailto:cs@shirtindia.com) and [anuj19603@ajayoo.com](mailto:anuj19603@ajayoo.com)  
Address for correspondence: C/o, Headway Resolution and Insolvency Services Pvt. Ltd., 708, Bheja Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra. Contact: 022-66107433 / 30 for details. Centre, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra. Contact: 022-66107433/30 for details.  
Date: 11th November 2022  
Anuj Bajpai - Liquidator  
IBBI/PA-001/IP-P00311/2017-18/10575  
Place: Mumbai

**AXISCADES**  
Inspired Solutions. By Design  
**AXISCADES Technologies Limited**  
CIN NO : L72200KA1990PLC084435  
Regd. Office : Block C, Second Floor, Kirloskar Business Park, Bengaluru - 560024, Karnataka, India  
Website: [www.axiscades.com](http://www.axiscades.com) | Email: [info@axiscades.com](mailto:info@axiscades.com) | Tel : +91 80 4193 9000 | Fax : +91 80 4193 9099

## Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2022

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 Sept. 2022 (Unaudited)	30 Jun. 2022 (Unaudited)	30 Sept. 2021 (Unaudited)	30 Sept. 2022 (Unaudited)	30 Sept. 2021 (Unaudited)	31 Mar. 2022 (Audited)
Total Income	19,994.34	18,691.08	13,884.14	38,685.42	25,364.36	61,940.02
EBITDA*	3,737.09	2,272.63	1,103.90	6,009.72	2,143.95	6,873.78
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,809.16	1,819.58	472.72	4,628.74	807.52	3,891.56
Share in net profit / (loss) of associate	-	(4.41)	0.66	(4.41)	1.45	(45.82)
Exceptional items, net	-	(4,444.98)	-	(4,444.98)	-	(169.34)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,809.16	(2,629.81)	473.38	179.35	808.97	3,676.40
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,108.20	(3,168.99)	277.41	(1,060.79)	410.60	2,267.91
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,041.74	(2,981.89)	261.60	(940.15)	511.21	2,591.87
Equity Share Capital	1,901.68	1,901.68	1,889.51	1,901.68	1,889.51	1,897.23
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	31,229.08
Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:	5.52	(8.38)	0.70	(2.85)	1.03	5.86
2. Diluted:	5.26	(8.38)	0.69	(2.85)	1.02	5.76

**Notes:**  
1. In terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the aforesaid Statement of unaudited consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 of the AXISCADES Technologies Limited (the "Holding Company" or the "Company") and its subsidiaries (the Holding Company and its subsidiaries together hereinafter referred to as "the Group") and its associate has been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on November 08, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 09, 2022. The aforesaid consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.  
2. The unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the applicable Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/144/2019 dated March 29, 2019.  
3. The previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform with the current period presentation.  
4. Additional information on Standalone Financial Results is as follows:

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30 Sept. 2022 (Unaudited)	30 Jun. 2022 (Unaudited)	30 Sept. 2021 (Unaudited)	30 Sept. 2022 (Unaudited)	30 Sept. 2021 (Unaudited)	31 Mar. 2022 (Audited)
Total revenue (including other income)	6,813.68	6,136.73	4,300.85	12,950.41	7,985.57	18,402.64
EBITDA*	1,334.12	1,077.97	106.41	2,412.09	243.00	1,522.93
Profit / (Loss) before tax	313.28	(3,719.59)	(388.39)	(3,406.31)	(664.84)	355.40
Profit / (Loss) after tax	272.23	(3,924.93)	(393.62)	(3,652.70)	(683.76)	307.88
Total Comprehensive Profit / (Loss) for the period / year ended	162.74	(3,966.98)	(385.65)	(3,804.24)	(679.15)	346.58

\* Excluding other income, to align with industry norms.  
5. The above unaudited financial results of the Company are available on the Company's website ([www.axiscades.com](http://www.axiscades.com)) and also on the website of BSE ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), where the shares of the Company are listed.  
**For AXISCADES Technologies Limited**  
Sd/-  
**Arun Krishnamurthi**  
CEO & Managing Director  
Place : Bangalore  
Dated : November 09, 2022

**बैंक ऑफ महाराष्ट्र** Branch Gopalpura  
Bank of Maharashtra  
Byepass, Jaipur  
**NOTICE**  
Locker holders in Bank of Maharashtra, Gopalpura Branch are hereby informed that due to overdue rent in the following lockers past many years, bank is compelled to break open these lockers. Kindly contact said branch within 7 days of this notice to avoid inconvenience. Locker Nos. are 38 & 55.  
Authorized Officer, Bank of Maharashtra

**सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, मुख्यालय-प्रथम, जयपुर**  
कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005  
Email - [indrafc@rajasthan.gov.in](mailto:indrafc@rajasthan.gov.in)  
क्रमांक : एफ. 9(54) / आयु.उ. / MSEFC / HQ-1/2021 दिनांक : 08.11.2022  
M/S. Krishna Arjuna Enterprises, Village Khatiliye, Post Office Javanpura, Thesil Virat Nagar, Jaipur  
**अन्तिम नोटिस**  
कैम नम्बर - RJ/17/S/RJS/02031  
M/s. MODI INFRA SOLUTION, 9, LEE LA, MANSION, RAJ BHAWAN ROAD, CIVIL LINES, JAIPUR-302008 द्वारा आपका एप्लीकेशन (निवेदन, स्टॉक, डक) की आपूर्ति हेतु विलम्बित मुदतान सशि रु. 148,71,773/- तथा देय व्याज सशि रु. 96,93,990/- का मुदतान आप द्वारा आपूर्तिकर्ता इकाई को नहीं किये जाने के कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा एमएसएमईडी एक्ट-2008 की धारा 18 के अन्तर्गत सुविधा परिषद को रेफरन्स प्रस्तुत करने पर बाद के संबंध में परिषद की 10 वीं बैठक दिनांक 21.10.2021 हेतु मीटिंग नोटिस दिनांक 08.10.2021 रजिस्टर्ड डाक से भेजित किये गये। उक्त बैठक में आपूर्तिकर्ता उपस्थित हुए तथा आपके पत्र से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।  
परिषद की 18 वीं बैठक दिनांक 20.07.2022 हेतु मीटिंग नोटिस दिनांक 08.07.2022 रजिस्टर्ड डाक से भेजित किये गये। उक्त बैठक में आपूर्तिकर्ता उपस्थित हुए। आप उपस्थित नहीं हुए और ना ही नोबार्डल पर सम्पर्क हो पाया। अतः परिषद द्वारा संसम्मति से क्रेता के क्षेत्र में संपूर्ण स्तर के समाचार पत्र के माध्यम से आपूर्तिकर्ता के व्यय पर क्रेता के लिए सुनवाई के अंतिम अवसर की लोक सूचना प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया गया। अतः जयपुर औद्योगिक नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि आपूर्तिकर्ता इकाई को विलम्बित बकाया मुदतान न किये जाने के संबंध में अपना प्रत्युत्तर अविलम्ब प्रस्तुत करें।  
अन्यथा एमएसएमईडी एक्ट-2008 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।  
महेन्द्र कुमार पारख  
आयुक्त, उद्योग एवं उद्यम  
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद, मुख्यालय- प्रथम, जयपुर

**bajaj CONSUMER CARE**  
**Bajaj Consumer Care Limited**  
CIN: L01110RJ2006PLC047173  
Regd. Office : Old Station Road, Sevashram Chouraha, Udaipur 313 001, Rajasthan  
Phone: 0294-2561631-32 Website: [www.bajajconsumercare.com](http://www.bajajconsumercare.com)  
Email: [complianceofficer@bajajconsumer.com](mailto:complianceofficer@bajajconsumer.com)  
**Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and Half year ended September 30, 2022**  
(₹ in Lakh)

Particulars	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
	September 30, 2022 Unaudited	June 30, 2022 Unaudited	September 30, 2021 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	September 30, 2021 Unaudited	March 31, 2022 Audited
Total Income from operations	23,245.20	24,944.08	21,617.49	48,189.28	43,289.27	87,995.74
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)*	3,835.78	4,093.24	5,648.54	7,929.02	11,570.72	20,647.51
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)*	3,165.91	3,389.27	4,650.99	6,555.18	9,541.27	16,963.50
Total Comprehensive Income (net of tax)	3,151.37	3,372.86	4,697.91	6,524.23	9,579.84	16,973.58
Equity Share Capital	1,475.40	1,475.40	1,475.40	1,475.40	1,475.40	1,475.40
Other Equity	-	-	-	-	-	79,487.98
Earnings Per Share (of ₹1/- each) (Not annualised)						
Basic:	2.15	2.30	3.15	4.44	6.47	11.50
Diluted:	2.14	2.30	3.15	4.44	6.46	11.49

\* There is no exceptional and/or extraordinary items.  
The key numbers of standalone unaudited financial results of the Company are as under:  
(₹ in Lakh)

Particulars	Quarter ended			Half Year ended		Year ended
	September 30, 2022 Unaudited	June 30, 2022 Unaudited	September 30, 2021 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	September 30, 2021 Unaudited	March 31, 2022 Audited
(a) Total income from operations	23,030.23	24,673.53	21,514.93	47,703.76	43,044.34	87,837.40
(b) Net Profit before tax	3,849.10	4,044.25	5,725.41	7,893.35	11,647.33	21,148.99
(c) Net Profit after tax	3,176.59	3,337.64	4,725.07	6,514.23	9,612.31	17,453.84

**Note:**  
a) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on Nov 09, 2022. The statutory auditors have carried out a limited review of the above results.  
b) The above is an extract of detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the website of the Company i.e. [www.bajajconsumercare.com](http://www.bajajconsumercare.com).

**For Bajaj Consumer Care Limited**  
Sd/-  
**Jaideep Nandi**  
Managing Director  
DIN : 06938480  
Place : Mumbai  
Date : 09.11.2022

**Fullerton Grihashakti**  
FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED  
Corporate Off. : Flr. 5 & 6, B-Wing, Supreme IT Park, Supreme City, Powai, Mumbai - 400 076  
Regd. Off. : Megh Towers, Flr. 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduravoyal, Chennai - 600 095  
**POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY ((Appendix IV) Rule 8(1))**  
WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of Fullerton India Home Finance Company Limited a Housing Finance Company (fully registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)) (hereinafter referred to as "FHFL") having its registered office at Megh Towers, Floor 3, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduravoyal, Chennai, Tamilnadu - 600095 under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of Fullerton India Home Finance Company Limited for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

Sl. No.	Name of the Borrower(s)/ Co-Borrower(s) with Loan Account No.	Description of Secured Assets (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Physical Possession
01	LAN : 602607210573694 (1) ASHOK KHANDELWAL, S/o SITA RAM, (2) MRS. MAYA DEVI KHANDELWAL, W/o ASHOK KHANDELWAL, (3) M/S LOVEKUSH PRINTERS Add. 1 : SR-5 SHRI RAM COLONY, SURAJ POL GATE, LAXMI NARAYAN PURI, RAMGANJ BAZAR, JAIPUR - 302003. Add. 2 : LOVEKUSH PRINTERS SHOP NO. 1, BORAJ THAKUR KA RASTA, KISHANPOLE BAZAR, JAIPUR - 302003.	FLAT NO. S-1 2nd FLOOR VRINDAWAN VATIKA VII PLOT NO. B-48, SUNRISE CITY VILLAGE NIWARU JAIPUR BOUNDARIES : NORTH : NA, EAST : PLOT NO. 72-A, SOUTH : ROAD 40 FEET, WEST : PLOT NO. 71	Date : 30.04.2021 Rw. 20,24,440.98 (Rupees Twenty Lakh Twenty Four Thousand Four Hundred Forty and Paise Fifty Three only) along with interest as on 27.03.2021	09.11.2022 (Physical Possession)

Place: Jaipur  
Date: 11.11.2022  
Sd/-  
Authorized Officer  
FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED

